



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 9—जून 15, 2012 (ज्येष्ठ 19, 1934)

No. 23]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 9—JUNE 15, 2012 (JYAISTHA 19, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची

पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
	भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं. ....	481
	भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं. ....	539
	भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं. ....	3
	भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं. ....	813
	भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम. ....	*
	भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ. ....	*
	भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट. ....	*
	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं). ....	*
	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं. ....	*
	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं). ....	*
	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश. ....	*
	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं. ....	1043
	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस. ....	*
	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं. ....	*
	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं. ....	4933
	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस. ....	519
	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक. ....	*

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	481	Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	539	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .....	3	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .....	813	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .....	1043
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .....	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .....	4933
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....	519
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the -Ministries of the Government of India (other than the		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .....	*

\*Folios not received.

## भाग I — खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 2012

संख्या 85-प्रेज़/2012 - राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2012 के अवसर पर कमांडेंट राघवेन्द्र गौर (0190-ई) को बहादुरी के लिए तटरक्षक पदक (शौर्य) सहर्ष प्रदान करती हैं।

### प्रशस्ति उल्लेख

कमांडेंट राघवेन्द्र गौर (0190-ई) ने 11 जनवरी, 1988 को भारतीय तटरक्षक में सेवा आरंभ की। अफसर डोर्नियर वायुयान के पायलट हैं।

2. 06 फरवरी, 2011 को, तटरक्षक के 747 स्क्वाड्रन को जलदस्युता-रोधी अभियान का कार्यभार सौंपा गया। 06 फरवरी, 2011 को सूर्योदय के समय एक डोर्नियर वायुयान ने उड़ान भरी। क्षेत्र में पहुंचने पर वायुयान को भारतीय तटरक्षक पोत समर, जो कि संदिग्ध जलदस्यु पोत का तेजी से पीछा कर रहा था, द्वारा कार्रवाई स्थल के बारे में दिशानिर्देशित किया गया।

3. कमान पायलट के रूप में, कमांडेंट गौर ने भारतीय तटरक्षक पोत समर के सामरिक कमान अफसर (ओ टी सी) के दिशानिर्देशों के समन्वय से अपनी व्यावसायिक कुशाग्रता और कुशल उड़ान कौशल को प्रदर्शित किया तथा वायुयान को 200 फुट की ऊंचाई तक नीचे संचालित किया, ताकि जलदस्यु पोत की पहचान की जा सके। ओ टी सी के दिशानिर्देशों पर, अफसर ने न्यूनतम ऊंचाई पर वायुयान को संचालित किया तथा जलदस्यु पोत की प्रांतालय-11 के रूप में पहचान की गई। इस महत्वपूर्ण सूचना से सामरिक कमान अफसर (ओ टी सी) को तुरंत योजना तैयार करने में सहायता मिली और तदनुसार डोर्नियर वायुयान को जलदस्यु पोत पर फायर करने का निदेश दिया गया।

4. चूंकि जलदस्यु पोत ने नौचालन बंद नहीं करने पर, भारतीय तटरक्षक पोत समर ने जलदस्यु पोत पर फायरिंग शुरू की तथा भारतीय नौसेना पोत और कमांडेंट गौर की कमानाधीन तटरक्षक डोर्नियर द्वारा पोत का पीछा किया जा रहा था। डोर्नियर वायुयान कुल तीन बार जलदस्यु पोत के पास से गुजरा और वायुयान से सटीक फायरिंग की गयी।

5. अफसर ने निम्न दृश्यता में विमान को अत्यंत कौशलपूर्ण तरीके से न्यूनतम ऊंचाई पर उड़ाते हुए तत्परता और निडरता का प्रदर्शन किया। अफसर ने प्रांतालय-11 को, यह जानते हुए कि

पोत प्रत्याक्रमण करने के लिए शस्त्रों से पूर्णतया लैस है, उलझाये रखा और जलदस्यु पोत पर पर्याप्त दबाव बनाने में सफलता प्राप्त की और अंततः पोत को रूकने पर मजबूर कर दिया। अफसर ने तटरक्षक पोत के सामरिक कमान अफसर (ओ टी सी) के साथ संपर्क भी बनाए रखा तथा अपराध की सदोषता को सिद्ध करने के लिए लगातार फोटोग्राफी करने को सुनिश्चित किया। सभी यूनिटों द्वारा संयुक्त रूप से फायरिंग करने और वायुयान के बारंबार नीची उड़ान भरने के परिणामस्वरूप, जलदस्यु पोत को दबाव के आगे झुकना पड़ा तथा तत्पश्चात पोत ने आत्मसमर्पण कर दिया।

6. कमांडेंट राघवेन्द्र गौर (0190-ई) ने स्वयं को बखूबी प्रमाणित किया है, फलस्वरूप इन्हें तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है।

7. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(i) के तहत तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है तथा परिणामस्वरूप नियम 13 के अधीन तटरक्षक पदक (शौर्य) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है।

(बरूण मित्रा)  
संयुक्त सचिव

संख्या 86-प्रेज़/2012 - राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2012 के अवसर पर जिजेश ककोथ, उत्तम नाविक (मैकेनिकल इंजीनियर), 05367-वाई को बहादुरी के लिए तटरक्षक पदक (शौर्य) सहर्ष प्रदान करती हैं।

### प्रशस्ति उल्लेख

जिजेश ककोथ, उत्तम नाविक (मैकेनिकल इंजीनियर), 05367-वाई ने 31 जनवरी, 2006 को भारतीय तटरक्षक में सेवा आरंभ की। भर्ती कार्मिक 26 दिसंबर, 2010 से भारतीय तटरक्षक पोत हब्बा खातून में तैनात है।

2. 28 जून, 2011 को, भारतीय तटरक्षक पोत हब्बा खातून के अनुगामी प्रकृति में पोर्ट शाफ्ट और पोर्ट डीजल अल्टर्नेटर (डी ए) पर भार के साथ, स्टारबोर्ड मुख्य इंजन में एकल इंजन संक्रिया करने के दौरान, लगभग 1330 बजे यह देखा गया कि पोर्ट गियर बॉक्स का तापमान क्रमिक रूप से बढ़ रहा था तथा यह 75 डिग्री सेल्सियस पार करने वाला था। मानक प्रचालन क्रियाविधि के अनुसार 1335 बजे पोर्ट गियर बॉक्स को आपाती शीतलन प्रदान किया गया। उसके बाद लगभग 1345 बजे मशीन नियंत्रण कक्ष के प्रहरी को विद्युत क्षमता में हल्की अस्थिरता नजर आई। उसी समय, जिजेश ककोथ, जो कि डीजल अल्टर्नेटर पहरा ड्यूटी पर था, ने पोर्ट डीजल अल्टर्नेटर के बांये अल्टर्नेटर एक्साइटर टर्मिनल बॉक्स से चिंगारी निकलते हुए देखी। कर्मी ने डिस्टिलिंग प्लांट के नीचे से जा रहे इजेक्टर पंप डिस्चार्ज लाइन से पानी को फव्वारे के रूप में बहते हुए भी देखा।

3. जिजेश ककोथ ने, समय गंवाये बिना मशीन नियंत्रण कक्ष को, तुरंत सूचित किया तथा पोर्ट डीजल अल्टर्नेटर को आपात स्थिति में बंद कर दिया और निकल रही चिंगारी को बुझाने के लिए

तुरंत अग्निशमन का प्रयोग किया। जिजेश ककोथ की त्वरित कार्रवाई से इंजन कक्ष को भयंकर आग की चपेट में आने से बचाया गया। भर्ती कार्मिक की निडरता, चैतन्यता तथा सेवा को स्वयं से आगे रखने के जज्बे के फलस्वरूप एक भयंकर दुर्घटना को टाला जा सका। इस दौरान विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूप से बंद थी तथा पूरा कक्ष धुंए से भरा हुआ था। भर्ती कार्मिक ने स्टारबोर्ड डीजल अल्टर्नेटर को तुरंत तैयार किया तथा विद्युतापूर्ति को पुनः बहाल करने के लिए इसे अविलंब चालू कर दिया।

4. जिजेश ककोथ द्वारा प्रदर्शित निःस्वार्थ कर्तव्यनिष्ठा, उच्च कोटि की व्यावसायिक सक्षमता, समर्पण भावना, नवीनतम दृष्टिकोण, दृढ़ता तथा सेवा के प्रति संपूर्ण प्रतिबद्धता उच्च दर्जे की है तथा सेवा की श्रेष्ठ परंपराओं के अनुरूप है।

5. जिजेश ककोथ, उत्तम नाविक (मैकेनिकल इंजीनियर), 05367-वाई ने स्वयं को बखूबी सिद्ध किया है, फलस्वरूप इन्हें तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है।

6. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(i) के तहत तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है तथा परिणामस्वरूप नियम 13 के अधीन तटरक्षक पदक (शौर्य) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है।

(बरूण मित्रा)

संयुक्त सचिव

संख्या 87-प्रेज़/2012 - राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस 2012 के अवसर पर निम्नलिखित अफसर को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

महानिरीक्षक वाजपेयाजूला श्री रामचन्द्र मूर्ति, तटरक्षक पदक (0092-जे)

2. विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 4(iv) के तहत राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक (विशिष्ट सेवा) प्रदान किया जाता है।

(बरूण मित्रा)

संयुक्त सचिव

संख्या 88-प्रेज़/2012 - राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस 2012 के अवसर पर निम्नलिखित अफसरों को सराहनीय सेवा के लिए तटरक्षक पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

- (i) उपमहानिरीक्षक विजय दिगम्बर चाफेकर (0087-वी)
- (ii) उपमहानिरीक्षक गोपीनाथन देवानन्द (4030-जे)
- (iii) कमांडेंट गुरमीत सिंह रल्ही (0228-क्यू)

2. सराहनीय सेवा के लिए तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(ii) के तहत तटरक्षक पदक (सराहनीय सेवा) प्रदान किया जाता है।

(बरूण मित्रा)

संयुक्त सचिव

## लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 मई 2012

सं. 4(1)-पीयू/2012--लोक सभा तथा राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, जिसका कार्यकाल 30 अप्रैल, 2013 को समाप्त होगा, के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए चुने गए :--

1. श्री हंसराज गं. अहीर
2. श्री अम्बिका बनर्जी
3. श्री बंस गोपाल चौधरी
4. डॉ. महेश जोशी
5. श्री शैलेन्द्र कुमार
6. डॉ. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी
7. श्री विलासराव बाबूरावजी मुत्तेमवार
8. श्री जगदम्बिका पाल
9. श्री अधलराव शिवाजी पाटील
10. श्री पोन्नम प्रभाकर
11. श्री राजेन्द्रसिंह राणा
12. श्री नामा नागेश्वर राव
13. श्री उदय सिंह
14. डॉ. प्रभा किशोर ताविआड
15. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी

सदस्य, राज्य सभा

16. श्री तारिक अनवर
17. श्री अनिल देसाई
18. श्री जर्नादन द्विवेदी
19. श्री नरेश गुजराल
20. डॉ. वी. मैत्रेयन
21. श्री मुख्तार अब्बास नकवी
22. श्री टी. एम. सेल्वागणपति

माननीय अध्यक्ष महोदया ने श्री जगदम्बिका पाल, संसद सदस्य को समिति (2012-2013) का सभापति नियुक्त किया।

राजीव शर्मा  
निदेशक

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 1 जून 2012

संकल्प

सं. 146/9/2011-आईटीसीसी--भारत सरकार ने नई दिल्ली में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति (सीडीटीएसी) का पुनर्गठन करने का निर्णय

लिया है। यह समिति प्रत्यक्ष करों से संबंधित मामले देखेगी। यह एक सलाहकार संस्था होगी तथा इसके कार्यों में निम्नलिखित के लिए उपायों पर सरकार को सलाह देना शामिल होगा :--

- (i) करदाताओं एवं आयकर विभाग के बीच आपसी समझ एवं सहयोग का विकास करना तथा प्रोत्साहित करना; और
- (ii) सामान्य स्वरूप की प्रशासनिक एवं प्रक्रियात्मक कठिनाइयों को दूर करना।

यह समिति न तो व्यक्तिगत मामलों पर चर्चा करेगी और न ही यह सरकार की कराधान नीति से संबंधित मामलों पर चर्चा करेगी।

2. समिति की संरचना निम्नानुसार होगी :--

- (i) अध्यक्ष -- वित्त मंत्री
- (ii) उपाध्यक्ष -- वित्त राज्य मंत्री (राजस्व)

सरकारी सदस्य

- (i) सचिव (राजस्व)
- (ii) अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
- (iii) सदस्य (राजस्व), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

गैर सरकारी सदस्य

(क) संसद सदस्य

- (i) श्री प्रदीप टमट, संसद सदस्य (लोक सभा)
- (ii) श्री बापी राजू कानुमुरी, संसद सदस्य (लोक सभा)
- (iii) डॉ. अशोक एस. गांगुली, संसद सदस्य (राज्य सभा)
- (iv) श्री ईश्वर सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा)

(संसद सदस्यों का कार्यकाल समिति के गठन की तारीख से दो वर्ष के लिए या तब तक के लिए जब तक कि वे संसद के सदस्य बने रहते हैं, जो भी पहले हो, होगा)

(ख) अन्य गैर सरकारी सदस्य

- (i) अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली-110001
- (ii) अध्यक्ष, एसोसिएटिड चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एशोचेम कार्पोरेट कार्यालय, 1, कम्युनिटी सेंटर, जमरूदपुर, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली-110048
- (iii) अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्माल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, लघु उद्योग कुटी, 23-बी/2, गुरु गोविंद सिंह मार्ग (न्यू रोहतक रोड), न्यू लिबर्टी सिनेमा, नई दिल्ली-110005
- (iv) अध्यक्ष, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, पोस्ट बाक्स नं. 7100, इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110002
- (v) श्री दिलीप श्रीकृष्ण दामले, सनदी लेखाकार, 1 बी, अंकुर 50डी/1 पुरनदास रोड, कोलकाता-700029

- (vi) श्री प्रवीण बासवराज, (वकील) संख्या 15, पेलेस क्रास रोड, बंगलुरु-20
- (vii) प्रोफेसर डॉ. के. एन. वैद्यनाथन, प्रबंध विशेषज्ञ, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, सेंट जेवियर कालेज, 5, महापालिका मार्ग, फोर्ट, मुम्बई-400001
- (viii) डॉ. के. आर. सनमुगम, (अर्थशास्त्री), मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, गांधी मंडपम रोड, चेन्नई-600025
- (ix) श्री राजकुमार अग्रवाल, (व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग-दक्षिण क्षेत्र के प्रतिनिधि), 64/ए, फैंज 1, आईडीए-जीडीमेल्ट, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
- (x) श्री रतन लाल, (व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग-उत्तर क्षेत्र के प्रतिनिधि), मार्फत राधेश्याम रतन लाल, 6658, गडोदिया मार्केट, खारी बावली, दिल्ली-110006
- (xi) श्री बाबासाहेब एन. कल्याणी, (व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग-पश्चिम क्षेत्र के प्रतिनिधि), 221/ए, अमित, सेन्ट्रल एवेन्यू, रोड नं. 3, कल्याणी नगर, पुणे-411006
- (xii) श्री बी. एल. बागरा, (व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग-पूर्वी क्षेत्र के प्रतिनिधि), नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नाल्को भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751061

3. निदेशक (आईटीसीसी), सीबीडीटी इस समिति के सचिव होंगे।

4. गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। समिति की हर वर्ष दो बार बैठक होगी।

#### आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

दीपक गर्ग  
निदेशक (आईटीसीसी)

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग  
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 22 मई 2012

सं. 1/1/2009-पीडी--इस कार्यालय की दिनांक 04.12.2009, 16.03.2011 और 04.05.2011 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित किया जाता है कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) की अपेक्षाओं के अनुरूप वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की सोसाइटी का दिनांक 26 जून, 2009 से तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन किया गया था।

डॉ. एस. बैनर्जी, सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग और अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग (दिनांक 04.12.2009 की अधिसूचना की क्रम संख्या 7 पर) की अधिवर्षिता के परिणामस्वरूप वे सोसाइटी के सदस्य नहीं रहे तथा डॉ. रतन कुमार सिन्हा, जिन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया है, अब सीएसआईआर

सोसाइटी की शेष अवधि, जो दिनांक 25 जून, 2012 तक है, के लिए नए सदस्य होंगे।

के. जयकुमार  
संयुक्त सचिव

#### नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 मई 2012

#### संकल्प

सं. ई.-11011/7/2009-रा.भा.--भारत सरकार ने नागर विमानन मंत्रालय के लिए हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। समिति का गठन, कार्य आदि निम्नलिखित होंगे :--

#### गठन

- |  |         |
|--|---------|
| 1. नागर विमानन मंत्री  | अध्यक्ष |
| सरकारी सदस्य   |         |
| 1. सचिव, नागर विमानन   | सदस्य   |
| 2. सचिव, राजभाषा विभाग एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार  | सदस्य   |
| 3. राजभाषा विभाग का प्रतिनिधि  | सदस्य   |
| 4. अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय  | सदस्य   |
| 5. संयुक्त सचिव (ए), नागर विमानन मंत्रालय  | सदस्य   |
| 6. संयुक्त सचिव (पी), नागर विमानन मंत्रालय   | सदस्य   |
| 7. संयुक्त सचिव (एस), नागर विमानन मंत्रालय   | सदस्य   |
| 8. आर्थिक सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय  | सदस्य   |
| (यदि किन्हीं अपरिहार्य प्रशासनिक कारणों से संबंधित संयुक्त सचिव बैठक में भाग लेने में असमर्थ हों तो उनके अधीन कार्यरत निदेशक/उप सचिव बैठक में भाग लेंगे) |         |
| 9. महा निदेशक, नागर विमानन महानिदेशालय, नई दिल्ली  | सदस्य   |
| 10. सुरक्षा आयुक्त, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, नई दिल्ली  | सदस्य   |
| 11. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, रेल संरक्षा आयोग, लखनऊ   | सदस्य   |
| 12. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एयर इंडिया लिमिटेड, मुंबई   | सदस्य   |
| 13. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली  | सदस्य   |
| 14. प्रबंध निदेशक, भारतीय होटल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली   | सदस्य   |
| 15. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि., नोएडा   | सदस्य   |

16. निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, फुरसतगंज, सदस्य रायबरेली		माननीय नागर विमानन मंत्री जी द्वारा नामित सदस्य	
17. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली	सदस्य	26. डॉ. कुलदीप भार्गव, शीतला घाटी, घिया मंडी, मथुरा-281001 (उत्तर प्रदेश)	सदस्य
गैर सरकारी सदस्य		27. डॉ. सोरन सिंह, ग्राम-महमदी, पोस्ट-कौराला, जिला-जे. पी. नगर (उत्तर प्रदेश)	सदस्य
संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित संसद सदस्य		28. डॉ. गणपत सिंह कश्यप, शिव मंदिर के समीप, टीचर कालोनी, धामपुर, जिला-बिजनौर (उत्तर प्रदेश)	सदस्य
18. डॉ. (श्रीमती) बोच्चा झांसी लक्ष्मी संसद सदस्य, लोक सभा 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001	सदस्य	29. श्री सुखबीर सिंह, निवास-अहमदपुर गठीना, डाकखाना-सूजरा, जिला-बागपत (उत्तर प्रदेश)	सदस्य
19. श्रीमती राजकुमारी चौहान संसद सदस्य, लोक सभा 73, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110011	सदस्य	राजभाषा विभाग द्वारा नामित सदस्य	
20. श्री अश्व अली टाक, संसद सदस्य, राज्य सभा बी-9, डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग, नई दिल्ली-110003	सदस्य	30. श्री चन्द्रकांत दायमा गोपीकृष्ण, 703, यश हाईट बिल्डिंग, दस-वाड़ी, नीयर जोबावाडी ठाकुर द्वार, गिरगांव, मुंबई-400002 (महाराष्ट्र)	सदस्य
21. श्री मुख्तार अब्बास नकवी संसद सदस्य, राज्य सभा सी 1/12 ए, पंडारा पार्क, नई दिल्ली-110003	सदस्य	31. श्री ठाकुर दास सुखदेवजी मालाणी, साई नगर, अमरावती, महाराष्ट्र	सदस्य
संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित संसद सदस्य		32. श्री सुबोध सोलंकी, 501-जी-2, ओबेलिक्स को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, सुन्दरवन कॉम्प्लैक्स, लोहखण्डवाला रोड, अंधेरी (वेस्ट), मुंबई-400053 (महाराष्ट्र)	सदस्य
22. श्री जे. एम. आरोन रशीद, संसद सदस्य, लोक सभा बी-703, एम. एस. फ्लैट्स, बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001	सदस्य	सदस्य-सचिव	
23. श्री निनोंग ईरिंग, संसद सदस्य, लोक सभा, 92, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110011	सदस्य	33. निदेशक (राजभाषा), नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य- सचिव
केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् द्वारा नामित सदस्य		समिति के कार्य	
24. श्री पंकज दीवान महामंत्री, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् 3/10, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008	सदस्य	इस समिति का कार्य संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम तथा नियम और केन्द्रीय हिन्दी समिति के नीतिगत निर्णयों तथा गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा हिन्दी से संबंधित जारी अनुदेशों के कार्यान्वयन के बारे में तथा नागर विमानन मंत्रालय के कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए सलाह देना है।	
अखिल भारतीय स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा नामित सदस्य		कार्यकाल	
25. श्री महीपाल सिंह, सचिव, भारतीय भाषा एवं संस्कृति केन्द्र, 1-187, सूरजमल विहार, दिल्ली-110092	सदस्य	समिति के सदस्यों का कार्यकाल सामान्य रूप से समिति के गठन संबंधी संकल्प के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष होगा, बशर्ते कि :-- (1) जो संसद सदस्य हैं वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।	



(2) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक ही इस समिति के सदस्य रहेंगे।

(3) यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण अथवा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे देने के कारण स्थान खाली होता है, तो उस स्थान पर नियुक्त सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा।

भत्ते

गैर सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर यात्रा तथा दैनिक भत्ते दिए जायेंगे।

मुख्यालय

समिति का मुख्यालय दिल्ली में होगा, किन्तु समिति अपनी बैठकें आवश्यकता पड़ने पर, किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, संसदीय राजभाषा समिति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

प्रशांत शुक्ल  
संयुक्त सचिव

**PRESIDENT'S SECRETARIAT**

New Delhi, the 26<sup>th</sup> January, 2012

No. 85-Pres/2012 - The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2012 to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Commandant Raghavendra Gour (0190-E).

**CITATION**

Commandant Raghavendra Gour (0190-E) joined the Indian Coast Guard on 11 January, 1988. The officer is a Dornier pilot.

2. On 06 February, 2011, 747 Squadron of Coast Guard was tasked for an anti-piracy operation. A Dornier Aircraft was launched at first light on 06 February, 2011. On reaching the area, the aircraft was vectored to the scene of action by Indian Coast Guard Ship (ICGS) Samar which was in hot pursuit of the suspected pirate vessel.
3. As the Pilot in Command, Commandant Gour displayed his professional acumen and adroit flying skills in coordination with the directives from the Officer in Tactical Command (OTC), ICGS Samar and descended to as low as 200 feet, for identification of the pirate vessel. On directions of the OTC, the officer made low passes and identified the vessel as Pranthlay 11. This vital information helped the OTC to quickly make plans according to which the Dornier was tasked to fire on the pirate vessel.
4. As the pirate vessel did not stop, ICGS Samar carried out firing on the vessel which was being followed by Indian Naval Ship and the Coast Guard Dornier under the command of Commandant Gour. A total of three passes were made and accurate firing was carried out.
5. The officer displayed prompt, valiant and fearless action with the move of executing an extremely skillful dive manoeuvre in low visibility. He kept Pranthlay 11 engaged even though it was fully armed to retaliate and succeeded in putting enough pressure on the pirate vessel, finally forcing it to stop. The officer also maintained communication with the OTC and ensured continuous photography to prove the culpability of the crime. As a result of the combined firing by all units and repeated low passes, the pirate vessel succumbed to the pressure and subsequently surrendered.
6. Commandant Raghavendra Gour (0190-E) has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry).
7. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the

special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award.

BARUN MITRA  
Jt. Secy.

New Delhi, the 26<sup>th</sup> January, 2012

No. 86-Pres/2012 - The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2012 to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Jijesh Kakkoth, Uttam Navik (Mechanical Engineer), 05367-Y.

### CITATION

Jijesh Kakkoth, Uttam Navik (Mechanical Engineer), 05367-Y joined the Indian Coast Guard on 31 January, 2006. The Enrolled Personnel (EP) is appointed onboard Indian Coast Guard Ship (ICGS) Habbah Khatun since 26 December, 2010.

2. On 28 June, 2011, whilst ICGS Habbah Khatun was carrying out single engine operation on starboard main engine (SME), with port shaft in trailing mode and port diesel alternator (DA) on load, it was observed at about 1330 hours, that the port gear box temperature was gradually rising and was crossing 75 degree Celsius. As a standard operating procedure (SOP), emergency cooling to port gear box was provided at 1335 hours. Immediately, at about 1345 hours, the machinery control room (MCR) watch keeper observed mild fluctuation in power. At the same time, Jijesh Kakkoth, who was on DA watch, observed sparks emanating from the port alternator exciter terminal box of Port DA. He also observed that there was a fine spray of water erupting from ejector pump discharge line from underneath the distilling plant.

3. Without losing time, Jijesh Kakkoth alerted the MCR and shut down the port DA in emergency mode and also used fire extinguisher to extinguish the emanating sparks. The quick action taken by Jijesh Kakkoth prevented a major fire in the engine room. The EP's fearlessness and presence of mind, keeping service before self, averted a major catastrophic accident. During this time, there was a total power shut down and the compartment was filled with smoke. The EP immediately prepared starboard DA and started it without any delay to restore power supply.

4. The selfless devotion to duty, professional competence of high order, dedication, innovation in approach, perseverance and total commitment to the service consistently displayed by Jijesh Kakkoth have been of highest order and in keeping with the best tradition of the service.

5. Jijesh Kakkoth, Uttam Navik (Mechanical Engineer), 05367-Y has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry).

6. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award.

BARUN MITRA  
Jt. Secy.

No. 87-Pres/2012 - The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2012 to award the President's Tatrakshak Medal for Distinguished Service to the undermentioned officer:-

Inspector General Vajapeyajula Sree Ramachandra Muthy, TM (0092-J)

2. The President's Tatrakshak Medal for Distinguished Service award is made under Rule-4(iv) of the rules governing grant of the President's Tatrakshak Medal for Distinguished Service.

BARUN MITRA  
Jt. Secy.

No. 88-Pres/2012-The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2012 to award the Tatrakshak Medal for Meritorious Service to the undermentioned officers:-

- (i) Deputy Inspector General Vijaya Digambar Chafekar (0087-V)
- (ii) Deputy Inspector General Gopinathan Devanand (4030-J)
- (iii) Commandant Gurmit Singh Ralhi (0228-Q)

2. The Tatrakshak Medal (Meritorious Service) award is made under Rule 11(ii) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal for Meritorious Service.

BARUN MITRA  
Jt. Secy.

## LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 23rd May 2012

No. 4(1)-PU/2012—The following members of Lok Sabha and Rajya Sabha have been elected to serve as members of the Committee on Public Undertakings for the term ending on 30 April, 2013 :—

## Members, Lok Sabha

1. Sh. Hansaraj Gangaram Ahir
2. Sh. Ambica Banerjee
3. Sh. Bansa Gopal Chowdhury
4. Dr. Mahesh Joshi
5. Sh. Shailendra Kumar
6. Dr. (Smt.) Botcha Jhansi Lakshmi
7. Sh. Vilasrao Baburaoji Muttemwar
8. Sh. Jagdambika Pal
9. Sh. Adhalrao Shivaji Patil
10. Sh. Ponnamb Prabhakar
11. Sh. Rajendrasinh Rana
12. Sh. Nama Nageswara Rao
13. Sh. Uday Singh
14. Dr. Prabha Kishor Taviad
15. Sh. Bhisma Shankar *alias* Kushal Tiwari

## Members, Rajya Sabha

16. Sh. Tariq Anwar
17. Shri Anil Desai
18. Sh. Janardan Dwivedi
19. Sh. Naresh Gujral
20. Dr. V. Maitreyan
21. Shri Mukhtar Abbas Naqvi
22. Sh. T. M. Selvaganapathi

The Hon'ble Speaker has been pleased to appoint Shri Jagdambika Pal as Chairman of the Committee (2012-2013)

RAJEEV SHARMA  
Dir.

MINISTRY OF FINANCE  
(DEPARTMENT OF REVENUE)  
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES  
New Delhi, the 1st June 2012

## RESOLUTION

No. 146/9/2011-ITCC—The Government of India has decided to reconstitute the Central Direct Taxes Advisory Committee (CDTAC) at New Delhi. The Committee will deal with matters relating to Direct Taxes. It will be an advisory body and its functions will be to advice the Government on measures for :—

- (i) Developing and encouraging mutual understanding and co-operation between tax payers and the Income Tax Department; and
- (ii) Removing administrative and procedural difficulties of a general nature.

The committee shall not discuss individual cases nor shall it discuss matters relating to the taxation policy of the Government.

## 2. The Composition of the committee would be as under :—

- (i) Chairman — Finance Minister
- (ii) Vice Chairman — Minister of State for Finance (Revenue)

## Official Members

- (i) Secretary (Revenue)
- (ii) Chairman, Central Board of Direct Taxes
- (iii) Member (Revenue), Central Board of Direct Taxes

## Non-Official Members

## A. Members of Parliament

- (i) Sh. Pradeep Tamta, M.P. (Lok Sabha)
- (ii) Sh. Bapi Raju Kanumuri, M.P. (Lok Sabha)
- (iii) Dr. Ashok S. Ganguly, M. P. (Rajya Sabha)
- (iv) Sh. Ishwar Singh, M.P. (Rajya Sabha)

(The term of Members of Parliament will be two years from the date of the constitution of the Committee or till they cease to be Member of Parliament whichever is earlier.)

## B. Other Non-Official Members

- (i) President, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, Federation House, Tansen Marg, New Delhi-110001.
- (ii) President, Associated Chambers of Commerce and Industry of India, ASSOCHAM Corporate Office, 1, Community Centre, Zamrudpur, Kailash Colony, New Delhi-110048.
- (iii) President, Federation of Association of Small Industries of India, Laghoodyog Kutee, 23-B/2, Guru Gobind Singh, Marg (New Rohtak Road), New Liberty Cinema, New Delhi-110005.
- (iv) President, Institute of Chartered Accountants of India, Post Box No. 7100, Indraprastha Marg, New Delhi-110002.
- (v) Sh. Dilip Shrikrishna Damle, (Chartered Accountant), 1B, Anchor, 50D/1, Purnadas Road, Kolkata-700029.
- (vi) Sh. Praveen Basavaraj, (Advocate), No. 15, Palace Cross Road, Bangaluru-20.
- (vii) Prof. Dr. K. N. Vaidyanathan, (Management Experts), Xavier Institute of Management and Research, St.

Xavier's College, 5, Mahapalika Marg, Fort, Mumbai-400001.

- (viii) Dr. K. R. Shanmugam, (Economist), Madras School of Economics, Gandhi Mandapam Road, Chennai-600025.
- (ix) Sh. Rajkumar Agrawal, (Representative of Trade, Commerce & Industry-Southern Zone), 64/A, Phase-1, IDA-JEEDIMETLA, Hyderabad (A.P.)
- (x) Sh. Ratan Lal, (Representative of Trade, Commerce Industry-Northern Zone), C/o Radhey Shyam Ratanlal, 6658, Gadodia Market, Khari Baoli, Delhi-110006.
- (xi) Sh. Babasaheb N. Kalyani, (Representative of Trade, Commerce Industry-Western Zone), 221/A, "AMIT", Central Avenue, Road No. 3, Kalyani Nagar, Pune-411006.
- (xii) Sh. B. L. Bagra, (Representative of Trade, Commerce Industry-Eastern Zone), National Aluminium Company Ltd., NALCO Bhavan, P/1, Nayapalli, Bhubneswar-751061.

3. Director (ITCC) CBDT shall be the Secretary of the Committee.

4. The term of office of non-official members shall be two years. The committee shall meet twice in every year.

#### ORDER

Orderd that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

DEEPAK GARG  
Dir. (ITCC)

#### DEPARTMENT OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH (COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi-110001, the 22nd May 2012

No. 1/1/2009-PD—In continuation to this Office Notification of even numbers dated 04.12.2009, 16.03.2011 and 04.05.2011, it is further notified for general information in compliance with the requirements of the Societies Registration Act (XXI of 1860), that the Council of Scientific & Industrial Research Society was reconstituted for a period of three years with effect from 26th June 2009.

Consequent to the superannuation of Dr. S. Banerjee, Secretary, Department of Atomic Energy and Chairman, Atomic Energy Commission (at Sl. No. 7 of the Notification dated 04.12.2009), he ceased to be the member of Society and Dr. Ratan Kumar Sinha, who has assumed the charge as Secretary, Department of Atomic Energy and Chairman, Atomic Energy Commission will now be the new CSIR Society member for the remaining tenure of the Society till 25th June 2012.

K. JAYAKUMAR  
Jt. Secy.

#### MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 18th May 2012

#### RESOLUTION

No. E-11011/7/2009-OL—The Government of India has decided to reconstitute the 'Nagar Vimanani Hindi Salahakar Samiti' for the Ministry of Civil Aviation. The composition of the Samiti and its functions etc. will be as under :—

#### 1. Composition

Minister of Civil Aviation	Chairman
----------------------------	----------

#### 2. OFFICIAL MEMBERS

- |   |        |
|---|--------|
| 1. Secretary, Civil Aviation  | Member |
| 2. Secretary, Department of Official Language & Hindi Advisor to the Govt. of India.  | Member |
| 3. Representative of Department of Official Language.   | Member |
| 4. Add. Sectr. & Financial Advisor, Ministry of Civil Aviation.   | Member |
| 5. Joint Secretary (A), Ministry of Civil Aviation  | Member |
| 6. Joint Secretary (P), Ministry of Civil Aviation  | Member |
| 7. Joint Secretary (S), Ministry of Civil Aviation  | Member |
| 8. Economic Advisor, Ministry of Civil Aviation   | Member |
| (If concerned Joint Secretary is not able to attend the meeting due to some unavoidable administrative reasons, the Director/Deputy Secretary working under him, will attend the meeting) |        |
| 9. Director General of Civil Aviation, New Delhi  | Member |
| 10. Commissioner of Security, Bureau of Civil Aviation Security, New Delhi.   | Member |
| 11. Chief Commissioner of Railway Safety, Commission of Railway Safety, Lucknow.  | Member |
| 12. Chairman cum Managing Director, Air India Ltd., Mumbai.   | Member |
| 13. Chairman, Airports Authority of India, New Delhi.   | Member |
| 14. Managing Director, Hotel Corporation of India Ltd., New Delhi.  | Member |
| 15. Chairman cum Managing Director, Pawan Hans Helicopter Ltd., Noida.  | Member |
| 16. Director, Indira Gandhi Rashtriya Udan Akademi, Fursatganj, Raebareli.  | Member |

17. Chairman, Airports Economic Regulatory Authority of India, New Delhi. Member

## NON OFFICIAL MEMBERS

Members of Parliament nominated by Ministry of Parliamentary Affairs

18. Dr. (Smt.) Botcha Jhansi Lakshmi, Member  
MP, Lok Sabha,  
6, Talkatora Road,  
New Delhi-110001.

19. Smt. Raj Kumari Chauhan, Member  
MP, Lok Sabha,  
73, South Avenue,  
New Delhi-110011.

20. Shri Ashk Ali Tak, Member  
MP, Rajya Sabha,  
B-9, Dr. Zakir Hussain Marg,  
New Delhi-110003.

21. Shri Mukhtar Abbas Naqvi, Member  
MP, Rajya Sabha,  
C 1/12-A, Pandara Park,  
New Delhi-110003.

Members of Parliament nominated by Committee of Parliament on Official Language

22. Shri J. M. Aaroon Rasheed, Member  
MP, Lok Sabha,  
B-703, M. S. Flats,  
Baba Kharag Singh Marg,  
New Delhi-110001.

23. Shri Ninong Ering, Member  
MP, Lok Sabha,  
92, South Avenue,  
New Delhi-110011.

Member nominated by Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad

24. Shri Pankaj Diwan, Member  
Maha Mantri, Kendriya Sachivalaya Hindi  
Parishad, 3/10, West Patel Nagar,  
New Delhi-110008.

Member nominated by Akhil Bhartiya Voluntary Organisation

25. Shri Mahipal Singh, Member  
Secretary,  
Bhartiya Bhasha Evam Sanskriti Kendra,  
1-187, Surajmal Vihar,  
Delhi-110092.

Members nominated by Hon'ble Minister of Civil Aviation

26. Dr. Kuldeep Bhargava, Member  
Sheetla Ghati,  
Ghiya Mandi,  
Mathura-281001 (U.P.)

27. Dr. Soran Singh, Member  
Vill. : Mahamdi,  
Post : Kaurala,  
Distt. J. P. Nagar (U. P.)

28. Dr. Ganpat Singh Kashyap, Member  
Near Shiv Mandir, Teacher's Colony,  
Dhampur, Distt. Bijnor (U.P.)

29. Shri Sukhbir Singh, Member  
Village : Ahmedpur Gatheena,  
P.O. : Sujra, Distt. Bagpat (U.P.)

30. Member Nominated by Department of Official Language

30. Shri Chandrakant Dayma Gopikrishan, Member  
703, Yash Height Building, Dus-wadi,  
Near Jobawadi Thakur Dwar,  
Girgaon, Mumbai-400002 (Maharashtra)

31. Shri Thakur Das Sukhdevji Malani, Member  
Sai Nagar, Amravati,  
Maharashtra.

32. Shri Subodh Solanki, Member  
501-G-2, Obelics Co-operative Housing  
Society, Sundervan Complex,  
Lohkhandwala Road, Andheri (West),  
Mumbai-400053, (Maharashtra)

Member Secretary

33. Director, Official Language, Ministry of Civil Aviation

## FUNCTION OF THE SAMITI

The function of the Samiti is to render advice in regard to the implementation of the provisions relating to Official Language Hindi contained in the Constitution, Official Language Act and Rules, and Policy decisions of the Kendriya Hindi Samiti and instructions issued by the Ministry of Home Affairs/Departments of Official Language relating to Official Language Hindi and also in regard to the Progressive use of Hindi in the Ministry of Civil Aviation.

## TENURE

The tenure of the members of the Samiti shall ordinarily by three years from the date of its constitution provided that :

- a member, who is Member of Parliament, ceases to be a member of the Samiti as soon as he/she ceases to be a Member of Parliament.
- Ex-officio Member of the Samiti shall continue as members as long as they hold the office by virtue of which they are members of Samiti.
- if a vacancy arises in the Samiti due to resignation, death etc., of the member, the member appointed on the vacancy shall hold office for the residual term of three years.

## ALLOWANCES

The non-official members of the Samiti will be paid travelling and daily allowance for attending the meetings of the Samiti at the rates fixed by the Government of India from time to time.

## HEADQUARTERS

The headquarters of the Samiti shall be at New Delhi, but if considered necessary, it may hold its meetings at any other place also.

## ORDER

Ordered that a copy of this resolution communicated to all Members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, President's Secretariat, Committee of Parliament on Official Language, Comptroller and Auditor General, Accountant General, Central Revenues, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat and all the Ministries and Department of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

PRASHANT SUKUL  
Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012  
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012